

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 27-03-2021

सहारनपुर पुलिस द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021 की तैयारियों एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनायें रखने हेतु 24

घंटो के अन्दर की गई कार्यवाही:-

- जनपद पुलिस द्वारा अन्तर्गत धारा 107/116 द0प्र0सं0 के तहत 92 वादों में कुल 1226 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।
- शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत आपराधिक छवि के कुल 53 अभियुक्तों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में चालानी रिपोर्ट प्रेषित की गई है।
- जनपद के विभिन्न थानों द्वारा आबकारी, गैंगेस्टर, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट एवं जुआ अधिनियम में वांछित चल रहे कुल 27 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
- थाना फतेहपुर, थाना देवबंद, थाना नकुड़, थाना नानौता, थाना बेहट, थाना जनकपुरी, थाना मंडी, थाना कुतुबशेर एवं थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा अवैध शराब एवं अवैध शस्त्र में जिला बदर अभियुक्त सहित कुल 13 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया।
- आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 की प्रक्रिया को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत एवं कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाये रखने हेतु 24 घंटों में कुल 268 लाईसेन्सी शस्त्र जमा कराये गये।
- आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 की प्रक्रिया को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत तथा संवेदनशीलता को कम करने हेतु जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा थाना सरसावा क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्रों का भ्रमण किया गया। तत्पश्चात गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक कर निर्वाचन/होली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के संबंध में वार्ता की गई। इसके साथ साथ जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्रों में शान्ति समिति की मीटिंग करते हुये निर्वाचन को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने हेतु क्षेत्रवासियों से अपील की जा रही है। इसके अतिरिक्त जनपद के प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों को क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर कानून-व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

प्रेस नोट दिनांक 27/03/2021

थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर की पुलिस टीम द्वारा 2 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, चोरी की 3 मोटर साईकिल व I-20 व SWIFT DZIRE कार

बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.03.21 को समय करीब 21.10 बजे थाना फतेहपुर सहारनपुर पुलिस द्वारा छुटमलपुर अनाज मंडी के पास से चैकिंग के दौरान 2 शातिर किस्म के वाहन चोरो गिरफ्तार करने मे महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। जिनके पास से चोरी की 3 मोटर साईकिले व 2 कारे बरामद हुई। दिनांक 26.03.21 को थाना फतेहपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की कुछ व्यक्ति चोरी की कार बेचने कि लिये सहारनपुर की ओर से देहरादून की ओर आने वाले है, जिस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा छुटमलपुर अनाज मंडी के पास सघन चैकिंग चलाकर सहारनपुर की ओर से आ रही I-20 ASTA कार रंग सफेद को रुकवाकर चैक किया व उसके रजिस्ट्रेशन नं0 DL8CAT0908 को एप पर चैक किया गया जो गलत पाया गया। जिस आधार पर उक्त दोनो व्यक्तियों को पुलिस हिरासत मे लेकर नाम पुछताछ करने पर उक्त दोनो अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि हम लोगो ने यह कार 2-3 माह पूर्व रोहणी दिल्ली से चोरी की थी, जिसे आज हम लोग बेचने के लिये देहरादून जा रहे थे कि आप द्वार पकड लिया गया। पकडे गये अभियुक्तो द्वारा बताये गये स्थान से चोरी की 1 अन्य कार SWIFT DZIRE व चोरी की 3 मोटर साईकिल बरामद हुई है। घटना के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0 121/21 धारा 420/465/414 भादवि पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तो का नाम व पता

- 1- अबुजर पुत्र सलीम नि0 मौ0 खालापार थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर हाल नि0 देवबिहार कालोनी भारुवाला थाना क्लेमनटाऊन जनपद देहरादून
- 2- सिकन्दर पुत्र सादिक नि0 मकान नं0 535 आफताब मंजिल वाली गली दक्षिणी खालापार थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर

बरामदगी का विवरण

- 1- एक I-20 ASTA कार फर्जी नम्बर प्लेट
- 2- एक SWIFT DZIRE कार रंग पीला
- 3- एक रायँल इन्फ्रील्ड मोटर साईकिल रंग ग्रे
- 4- एक हीरो होन्डा स्पैण्डर प्लस रंग लाल बिना नम्बर
- 5- एक अवेन्जर्स रंग नील बिना नम्बर

आपराधिक इतिहास

- 1- अबुजर पुत्र सलीम नि0 मौ0 खालापार थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर हाल नि0 देवबिहार कालोनी भारुवाला थाना क्लेमनटाऊन जनपद देहरादून
 - (1) मु0अ0सं0 121/21 धारा 420/465/414 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
 - (2) मु0अ0सं0 686/21 धारा 379 भादवि थाना के0एन0 काटजू मार्ग रोहिडी नई दिल्ली
- 2- सिकन्दर पुत्र सादिक नि0 मकान नं0 535 आफताब मंजिल वाली गली दक्षिणी खालापार थाना कोतवाली नगर जनपद मुजफ्फरनगर
 - (1) मु0अ0सं0 121/21 धारा 420/465/414 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
 - (2) मु0अ0सं0 686/21 धारा 379 भादवि थाना के0एन0 काटजू मार्ग रोहिडी नई दिल्ली

पुलिस पार्टी का नाम

- 1- एस0ओ0 श्री मनोज चौधरी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
- 2- उ0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
- 3- उ0नि0 श्री दीपचन्द थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
- 4- उ0नि0 श्री पवनदीप शर्मा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
- 5- का0 305 दिनेश कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
- 6- का0 1557 गौरव कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
- 7- का0 1666 पंकज कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
- 8- का0 1619 विक्रान्त कुमार थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 27-03-2021

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 26-03-2021 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा खुजनावर मोड से अभि० 1-अफजाल पुत्र इस्लाम निवासी चौबारा थाना फतेहपुर व ग्राम फतेहपुर बिजली घर के सामने से अभि० 2-जुल्फान पुत्र इस्लाम निवासी रसूलपुर थाना फतेहपुर, सहारनपुर को 01-01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु०अ०सं० 119,120/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 26-03-2021 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा ग्राम भटोल की ओर जाने वाले रास्ते पर बिजलीघर के पास से अभि० विकास पुत्र सुन्दर निवासी ग्राम बचीटी थाना देवबन्द, सहारनपुर को 20 लीटर शराब खाम सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु०अ०सं० 194/21 धारा 60(1) आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना नकुड पुलिस द्वारा जिलाबदर अभियुक्त अवैध तमंचे/कारतूस सहित गिरफ्तार :-

दिनांक 26-03-2021 को थाना नकुड पुलिस द्वारा टाबर तिराहा से अभि० कादिर पुत्र फाजिल निवासी ग्राम रसूलपुर थाना नकुड, सहारनपुर को जिलाबदर होने के उपरान्त 01 तमंचा मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कार० .315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु०अ०सं० 121/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व मु०अ०सं० 122/21 धारा 10 यूपी गुण्डा एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना नकुड पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 26-03-2021 को थाना नकुड पुलिस द्वारा टाबर तिराहा से अभि० दिलनवाज पुत्र जहांबाज निवासी ग्राम रसूलपुर थाना नकुड, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नकुड पर मु०अ०सं० 123/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना नानौता पुलिस द्वारा जिलाबदर अभियुक्त नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार :-

दिनांक 26-03-2021 को थाना नानौता पुलिस द्वारा आम का बाग ग्राम सोना अर्जुनपुर से अभि० ओमबीर पुत्र तेल्लूराम निवासी ग्राम सोना अर्जुनपुर थाना नानौता, सहारनपुर को जिलाबदर होने के उपरान्त 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना नानौता पर मु०अ०सं० 101/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व मु०अ०सं० 102/21 धारा 10 यूपी गुण्डा एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना बेहट पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 26-03-2021 को थाना बेहट पुलिस द्वारा टी०वी०एस० एजेंसी के पास कस्बा बेहट से अभि० पवन पुत्र चन्दुराम निवासी मौ० माजरी कस्बा व थाना बेहट, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु०अ०सं० 151/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा अवैध शराब व चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 26-03-2021 को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा जुमा मस्जिद के पेड के पास से अभि० फरत खुर्शीद आलम निवासी कमेला कालोनी हल्ला वाली गली थाना मण्डी, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू व 50 लीटर कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु०अ०सं० 84/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व मु०अ०सं० 85/21 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 26-03-2021 को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा भारत पेट्रोल पम्प के पास से अभि० रोहिताश उर्फ कालू पुत्र अतर सिंह निवासी माहीपुरा थाना जनकपुरी, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना जनकपुरी पर मु०अ०सं० 86/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना मण्डी पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 26-03-2021 को थाना मण्डी पुलिस द्वारा 62 फुटा रोड से अभि० नवाब पुत्र सत्तार निवासी माहीपुरा थाना जनकपुरी, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु०अ०सं० 198/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा अवैध शराब सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 26-03-2021 को थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा बुड्डी माई चौक से अभि० मुर्सलीन पुत्र अब्दुल अहमद निवासी गली नम्बर नदीम कालोनी थाना कुतुबशेर, सहारनपुर को 48 पक्के देशी शराब सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु०अ०सं० 105/21 धारा 60 आबकारी अधि० पंजीकृत किया गया।

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा नाजायज चाकू सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 26-03-2021 को थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा नाला पटरी से अभि० आसिफ पुत्र नईम निवासी हबीबगढ थाना कुतुबशेर, सहारनपुर को 01 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु०अ०सं० 106/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा अवैध तमंचा/कारतूस सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 26-03-2021 को थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा सब्जी मण्डी दिल्ली रोड से अभि० आश मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद निवासी इस्लाम नगर थाना रामपुर, सहारनपुर को 01 तमंचा मय 01 कार० जिन्दा .315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु०अ०सं० 157/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

मीडिया/सोशल मीडिया सेल
सहारनपुर।